



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 874 ]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2001/अग्रहायण 7, 1923

No. 874]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2001/AGRAHAYANA 7, 1923

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

सुम्बई, 28 नवम्बर, 2001

का. आ. 1181(अ).— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77क की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) तथा (2) और धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 2001 कहा जायेगा ।  
(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 (इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" के रूप में निर्दिष्ट) में,  
(क) विनियम 5 के पश्चात्, नया विनियम 5क निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जायेगा -

(1) "बोर्ड का संकल्प - 5क. (1) कंपनी, इसकी बैठक में निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प द्वारा प्राधिकृत, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (सं. 2001 की 7), द्वारा यथा अंतःस्थापित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के पहले परंतुक के अधीन इसकी प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेने के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन इसकी प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस ले सकेगी :

(क) विनियम 8 के उप विनियम (1) के अधीन सार्वजनिक घोषणा करने के पूर्व, सार्वजनिक सूचना कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक, एक हिन्दी राष्ट्रीय दैनिक तथा प्रादेशिक भाषा दैनिक में देगी, समस्त व्यापक परिचालन वाले, उस स्थान पर जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है ;

(ख) सार्वजनिक सूचना निदेशक बोर्ड द्वारा संकल्प के पारित किये जाने के 2 दिनों के भीतर दी जायेगी ;

(ग) सार्वजनिक सूचना में अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अंतर्विष्ट होंगे ।

(2) संकल्प की प्रति, निदेशक बोर्ड द्वारा इसकी बैठक में पारित, इसकी प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेने के लिए प्राधिकृत करते हुए, बोर्ड तथे स्टॉक एक्सचेंजों जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं के पास दाखिल की जायेगी, संकल्प के पारित किये जाने की तारीख के दो दिनों के भीतर । "

(ख) विनियम 7 में,

(i) शब्दों "उपाबद्ध व्याख्यात्मक विवरण" के पश्चात् तथा शब्दों "में, विनियम 5" के पूर्व शब्द "या विनियम 5क के उप-विनियम (1) के अधीन सार्वजनिक सूचना" अंतःस्थापित किये जायेंगे ।

(ii) शब्दों "विनियम 5" के पश्चात् तथा शब्दों "में उल्लिखित प्रकटीकरण" के पूर्व शब्द "या विनियम 5क" अंतःस्थापित किये जायेंगे ।

(ग) विनियम 8 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों "कंपनी जिसे एक विशेष संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया हो" के लिए शब्द "कंपनी जिसे विशेष संकल्प या जिसे इसकी बैठक में निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया हो" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

- (घ) विनियम 15 में, खंड (क) में, शब्दों "विनियम 5 में निर्दिष्ट विशेष संकल्प" के लिए शब्द "विनियम 5 में निर्दिष्ट विशेष संकल्प या विनियम 5क में यथा निर्दिष्ट इसकी बैठक में निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
- (ङ) विनियम 17 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में शब्दों " विनियम 5 में निर्दिष्ट विशेष संकल्प " के पश्चात् शब्द "या इसकी बैठक में निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प, विनियम 5क में यथा निर्दिष्ट," परिवर्धित किये जायेंगे ।
- (च) विनियम 19 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, शब्दों "प्रचार सामग्री" के पश्चात् तथा शब्दों "में वास्तविक," के पूर्व शब्द "या विनियम 5क के उप-विनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना" अंतःस्थापित किये जायेंगे ।

3. मूल विनियम की अनुसूची I में,

- (क) कोष्ठक "[ विनियम 5(1) के अधीन ]" के लिए कोष्ठक "[ विनियम 5(1) तथा विनियम 5क(1)(ग) ]" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (ख) मद (vii) के खंड (क) में, शब्दों "सामान्य बैठक" के पश्चात् शब्द "या निदेशक बोर्ड की बैठक" परिवर्धित किये जायेंगे ।
- (ग) मद (X) के खंड (क) में, शब्दों "जिस पर सामान्य बैठक" के पश्चात् तथा शब्दों "बुलायी गयी है" के पूर्व, शब्द "या निदेशक बोर्ड की बैठक" अंतःस्थापित किये जायेंगे ।

4. मूल विनियम की अनुसूची II में, मद 5 को अब निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :

" 5. सभी तात्त्विक तथ्यों जिनमें उस साधारण बैठक जिसमें क्रय द्वारा वापस लेने को अनुमोदित करते हुए विशेष संकल्प पारित हुआ था की सूचना से उपाबद्ध व्याख्यात्मक विवरण की विषय-वस्तु या क्रय द्वारा वापस लेने को प्राधिकृत करते हुए निदेशक बोर्ड द्वारा संकल्प के पारित किये जाने के पश्चात् जारी सार्वजनिक सूचना की विषय-वस्तु सम्मिलित है, का विस्तृत और पूरा प्रकटीकरण । "

5. मूल विनियम की अनुसूची III में, मद 6 को अब निम्नानुसार पढ़ा जायेगा .

" 6. सभी तात्त्विक तथ्यों जिनमें उस साधारण बैठक जिसमें क्रय द्वारा वापस लेने को अनुमोदित करते हुए विशेष संकल्प पारित हुआ था की सूचना से उपाबद्ध

व्याख्यात्मक विवरण की विषय-वस्तु या क्रय द्वारा वापस लेने को प्राधिकृत करते हुए निदेशक बोर्ड द्वारा संकल्प के पारित किये जाने के पश्चात् जारी सार्वजनिक सूचना की विषय-वस्तु सम्मिलित है, का विस्तृत और पूरा प्रकटीकरण । "

[ फा. सं. भाप्रविबो/विधि/40935/2001 ]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पादटिप्पण :—

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998, मूल विनियम, सा.का.नि. सं. 975 (अ), 14 नवंबर 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
2. यह तत्पश्चात् 21 सितंबर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. 776 (अ) द्वारा संशोधित हुआ था।

#### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

##### NOTIFICATION

Mumbai, the 28th November, 2001

#### Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2001

S.O. 1181 (E).— In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 11 and sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with clause (f) of sub-section (2) of Section 77A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998, namely :-

1. (i) These regulations shall be called the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2001.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations 1998 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'),
  - (a) after regulation 5, a new regulation 5A shall be inserted as under -
    - (1) "**Board resolution - 5A.**(1) A company, authorised by a resolution passed by the Board of Directors at its meeting, to buy back its securities under first proviso to clause (b) of sub-section (2) of section 77A of the Companies Act, 1956 as inserted by the Companies (Amendment) Ordinance, 2001 (No. 7 of 2001), may buy back its securities subject to the following conditions:

- (a) before making a public announcement under sub regulation (1) of regulation 8, a public notice shall be given in atleast one English national daily, one Hindi national daily and a regional language daily, all with wide circulation at the place where the registered office of the company is situated,
  - (b) the public notice shall be given within 2 days of the passing of the resolution by the Board of Directors;
  - (c) the public notice shall contain the disclosures as specified in schedule I.
- (2) A copy of the resolution, passed by the Board of Directors at its meeting, authorising buy back of its securities, shall be filed with the Board and the stock exchanges where the securities of the company are listed, within two days of the date of the passing of the resolution.
- (b) in regulation 7,
  - (i) after the words " the Companies Act" and before the words "shall contain the disclosures" the words "or the public notice under sub-regulation (1) of regulation 5A" shall be inserted.
  - (ii) after the words "regulation 5" and before the words " and also the following" the words " or regulation 5A" shall be inserted.
- (c) in regulation 8, in sub-regulation (1), after the words " authorised by a special resolution" and before the words " shall before buy back" the words " or a resolution passed by the Board of Directors at its meeting" shall be inserted.
- (d) in regulation 15, in clause (a), for the words " The special resolution referred to in regulation 5" the words " The special resolution referred to in regulation 5 or the resolution passed by the Board of Directors at its meeting as referred to in regulation 5A" shall be substituted.
- (e) in regulation 17, in sub-regulation (1), in clause (a) after the words "The special resolution referred to in regulation 5" the words "or the resolution passed by the Board of Directors at its meeting, as referred to in regulation 5A" shall be added.
- (f) in regulation 19, in sub-regulation (1), in clause (a), after the words "publicity material" and before the words "shall contain ", the words "3. public notice referred to in clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 5A " shall be inserted.

3. In Schedule I of the principal regulations;
  - (a) for the bracket "[under regulation 5 (1)]" the bracket "[under regulation 5 (1) and regulation 5A (1)(c)]" shall be substituted.
  - (b) in clause (a) of item (vii), after the words " the General Meeting" the words " or the Meeting of the Board of Directors" shall be added.
  - (c) in clause (a) of item (x), after the words " the General Meeting" and before the words " is conveyed", the words " or the Meeting of the Board of Directors" shall be inserted.
4. In Schedule II of the principal regulations, in item 5, after the words "approving the buy back was passed" the words " or the contents of public notice issued after the passing of the resolution by the Board of Directors authorising the buy back" shall be added.
5. In Schedule III of the principal regulations, in item 6, after the words "approving the buy back was passed" the words "or the contents of public notice issued after the passing of the resolution by the Board of Directors authorising the buy back" shall be added.

[F No. SEBI/LGL/40935/2001]

D. R. MEHTA, Chairman

**Footnote:—**

1. Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998, the principal regulations, were published in the Gazette of India on November 14, 1998, vide G.S.R No. 975 (E).
2. It was subsequently amended on September 21, 1999 by SEBI (Buy Back of Securities) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. 776 (E).